



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP06004259154938R
 Certificate Issued Date : 01-May-2019 01:04 PM
 Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ KANPUR/ UP-KNP
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0107159142103722R
 Purchased by : OMKRIPA INFRLAND PVT LTD
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : ARAZI NO- 523, AREA- 0.8355 HECT AT NARAMAU KACHHAR, KANPUR NAGAR
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : AKHILESH CITY HOMES REALITY AND DEV P LT AND OTHER
 Second Party : OMKRIPA INFRLAND PVT LTD
 Stamp Duty Paid By : OMKRIPA INFRLAND PVT LTD
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 12,87,000
 (Twelve Lakh Eighty Seven Thousand only)



E STAMP LOCKED

S.R.-II, KANPUR NAGAR

.....Please write or type below this line.....



SR 0002505219

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.




श्री गणेशाय नमः

कार्यालय का नाम : उपनिबन्धक जोन-2, कानपुर नगर

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 प्रस्तुत दिनांक | : 01-05-2019 |
| 2 निष्पादन दिनांक | : 01-05-2019 |
| 3 प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता | : श्री जीतेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री रामफल वर्मा
निवासी मकान नम्बर-568ख/502,
गीतापल्ली, आलमबाग, लखनऊ। |
| 4 लेखपत्र का प्रकार | : विक्रय-पत्र |
| 5 प्रतिफल | : 1,71,87,000 / -रूपया |
| 6 बाजारी मूल्य | : 1,83,81,000 / -रूपया |
| 7 विक्रेतागण का नाम व पता | : अखिलेश सिटी होम्स रियल्टी एण्ड
डेवलपमेन्ट प्रा0लि0 पंजीकृत कार्यालय-1,
कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ।
(2) अल्लिसना सिटी होम्स इस्टेट एण्ड
डेवलपमेन्ट प्रा0लि0 पंजीकृत कार्यालय-1,
कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ।
(3) आलोक सिटी होम्स शेल्टर्स प्रा0 लि0
पंजीकृत कार्यालय-1, कपूरथला
काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ।
(4) अल्विना सिटी होम्स इस्टेट एण्ड
रियल्टी प्रा0लि0 पंजीकृत कार्यालय-1,
कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ।
(5) अमरेशा सिटी होम्स रियल्टी एण्ड
डेवलपमेन्ट प्रा0लि0
(6) अम्बुजा सिटी होम्स शेल्टर्स प्रा0लि0
पंजीकृत कार्यालय-1, कपूरथला
काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ |
- सभी द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री जीतेन्द्र
प्रताप सिंह पुत्र श्री रामफल वर्मा निवासी
मकान नम्बर-568ख/502, गीतापल्ली,
आलमबाग, लखनऊ।

- 8 क्रेता का नाम व पता : ओमकृपा इन्फ्रा लैण्ड प्रा0लि0 स्थित-
मो0नं0-7844887731 एम.आई.जी.-220, कैलाश विहार,
पैन-AACCO9105H आवास विकास-1, कल्यानपुर, कानपुर
आधार-9061 2440 5004 नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अधिकृत
हस्ताक्षरी सन्दीप कुशवाहा पुत्र
राजकरन कुशवाहा निवासी मकान
नम्बर-116/123, आनन्द नगर,
रावतपुर गाँव, कानपुर नगर।
- 9 विक्रीत सम्पत्ति का विवरण
- 1 स्थान : राजस्व ग्राम नारामऊ कछार, तहसील व
जिला कानपुर नगर।
- 2 आराजी संख्या : खाता संख्या-00005 आराजी संख्या-
523 क्षेत्रफल 1.6710 हेक्टेयर का 1/2
भाग क्षेत्रफल 0.8355 हेक्टेयर स्थित
राजस्व ग्राम नारामऊ कछार, तहसील
व जिला कानपुर नगर।
- 3 विक्रीत क्षेत्रफल : 0.8355 हेक्टेयर यानि 2.064 एकड़
- 4 जमीन का प्रकार : कृषि भूमि
- 5 वर्तमान में स्थिति : कृषि होती है।
- 6 भूमि श्रेणी : संक्रमणीय भूमिधरी
- 7 सीमा से सड़क की चौड़ाई : कोई रोड नहीं।
- 8 आराजी संख्या-523 की सीमाओं का विवरण
- पूरब : आराजी संख्या-524
- पश्चिम : आराजी संख्या-487, 488, 489, 514
- उत्तर : आराजी संख्या-515, 522 व 525
- दक्षिण : आराजी संख्या-519, 512, 509 व 538
9. क्रय का प्रयोजन : कृषि कार्य हेतु।
- 10 स्टाम्प अदायगी का विवरण :
1. जिलाधिकारी दर कृषि भूमि : 2,20,00,000 /-रुपया प्रति हेक्टेयर
2. भूमि का मूल्य निर्धारित दर से : 1,83,81,000 /-रुपया
3. अधिकतम मूल्य : 1,83,81,000 /-रुपया
4. विक्रय मूल्य : 1,71,87,000 /-रुपया




5. जिलाधिकारी दर से देय स्टाम्प : 12,86,670 /—रूपया
 6. E-STAMP CERTIFICATE NO. IN- : 12,87,000 /—रूपया
 UP _____

DATED -01-May-2019 द्वारा कुल

अदा किया गया स्टाम्प

नोट—वर्तमान में विक्रीत कृषि भूमि वास्तव में कृषि भूमि ही है, तथा किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग में नहीं लाई जा रही है अथवा इसका विक्रय टुकड़ों में आवासीय या अन्य भूखण्ड के रूप में नहीं किया जा रहा है, विक्रीत कृषि भूमि सर्किल दर सूची में अर्धनगरीय ग्रामों के अन्तर्गत सूचीबद्ध है। विक्रीत कृषि भूमि का अन्तरण कृषि प्रयोजनार्थ हो रहा है। विक्रीत कृषि भूमि पर कोई वृक्ष, कूप, नलकूप या निर्माण नहीं है। विक्रीत कृषि भूमि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग/अन्तर्राज्यीय राजमार्ग/जनपदीय मार्ग के किनारे स्थित नहीं है। विक्रीत कृषि भूमि को संलग्नक मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, पक्षगण अनुसूचित जाति/जनजाति के नहीं है। विक्रीत भूमि सीलिंग, गाँव सभा या भूदान से पट्टे पर प्राप्त की हुई नहीं है और न ही नजूल भूमि से सम्बन्धित है और न ही सीलिंग से सीमाधिक्य भूमि घोषित है। विक्रीत आराजी की 200 मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधि विद्यमान नहीं है।

हम कि (1) अखिलेश सिटी होम्स रियल्टी एण्ड डेवलपमेन्ट प्रा०लि० पंजीकृत कार्यालय-1, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ (2) अल्सिना सिटी होम्स इस्टेट एण्ड डेवलपमेन्ट प्रा०लि० पंजीकृत कार्यालय-1, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ (3) आलोक सिटी होम्स शेल्टर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय-1, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ (4) अल्विना सिटी होम्स इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० पंजीकृत कार्यालय-1, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ (5) अमरेशा सिटी होम्स रियल्टी एण्ड डेवलपमेन्ट प्रा०लि० (6) अम्बुजा सिटी होम्स शेल्टर्स प्रा०लि० पंजीकृत कार्यालय-1, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ सभी द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री जीतेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री रामफल वर्मा निवासी मकान नम्बर-568ख/502, गीतापल्ली, आलमबाग, लखनऊ।

.....विक्रेता/प्रथमपक्ष

एवम्




ओमकृपा इन्फ्रा लैण्ड प्रा0लि0 स्थित-एम.आई.जी.-220, कैलाश विहार, आवास विकास-1, कल्यानपुर, कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अधिकृत हस्ताक्षरी सन्दीप कुशवाहा पुत्र राजकरन कुशवाहा निवासी मकान नम्बर-116/123, आनन्द नगर, रावतपुर गाँव, कानपुर नगर।

.....क्रेता/द्वितीयपक्ष


विदित हो कि विक्रेतागण/प्रथमपक्ष खाता संख्या-00005 आराजी संख्या-523 क्षेत्रफल 1.6710 हेक्टेयर का 1/2 भाग क्षेत्रफल 0.8355 हेक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम नारामऊ कछार, तहसील व जिला कानपुर नगर के संयुक्त मालिक, काबिज व दखीलकार है। उक्त सम्पत्ति को विक्रेतागण/प्रथमपक्ष जरिये विभिन्न पंजीकृत विक्रयपत्र पूर्व मालिक से खरीद किया है, जिसकी रजिस्ट्री क्रमशः दिनांक-17/01/2006 को दस्तावेज संख्या-169 व दिनांक-17/01/2006 को दस्तावेज संख्या-171 पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय, जोन-2, कानपुर नगर में दर्ज है। उक्त सम्पत्ति का दाखिल खारिज भी विक्रेतागण/प्रथमपक्ष के हक में हो चुका है और विक्रेतागण/प्रथमपक्ष का नाम राजस्व अभिलेखों में बहसियत संक्रमणीय भूमिधर व सहखातेदार के रूप में अंकित चला आ रहा है। विक्रेतागण/प्रथमपक्ष के अलावा उक्त सम्पत्ति पर अन्य कोई व्यक्ति शामिल, शरीक व हकदार व हिस्सेदार नहीं है। उक्त सम्पत्ति हर तरह से पाक व साफ है, कहीं रहन, बय, हिबा या मुश्तगरक जमानत आदि में नहीं है। उक्त सम्पत्ति के आधार पर किसी सरकारी, अर्धसरकारी, निजी या स्वायत्त संस्था से या निगम से कोई ऋण विक्रेतागण ने नहीं प्राप्त किया है तथा विक्रीत सम्पत्ति किसी धनराशि वसूली या टैक्सों के बकाया में कुर्क या बरसरे नीलाम नहीं है या किसी योजना में अर्जित नहीं है व उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई वाद या कार्यवाही किसी न्यायालय, पंचायत या ट्रिब्युनल में या किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन नहीं है और विक्रेतागण को उक्त सम्पत्ति को विक्रय करने से किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा रोका नहीं गया है। विक्रेतागण माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक-11 जुलाई 2016, जो अवमानना याचिका (सी0) 412-413/2012, जो कि सिविल अपील नम्बर-9813 व 9833 सन् 2011 में पारित किया गया है, के प्रकाश में इस भूमि को विक्रय करने के लिये पूर्णतयः सक्षम है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति पूर्णतया भारमुक्त पाक, साफ




स्थिति में है व उसके हस्तान्तरण के पूर्ण अधिकार विक्रेतागण को प्राप्त हैं।

यह भी विदित हो कि विक्रेतागण/प्रथमपक्ष को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता है और उक्त सम्पत्ति को विक्रय करने के अलावा रूपया प्राप्त करने का अन्य कोई जरिया नहीं नजर आता है। अतः विक्रेतागण/प्रथमपक्ष ने मुनासिब समझकर उक्त सम्पत्ति के विक्रय की बातचीत चलाई, जिस पर ओमकृपा इन्फ्रा लैण्ड प्रा०लि० स्थित-एम.आई.जी.-220, कैलाश विहार, आवास विकास-1, कल्यानपुर, कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अधिकृत हस्ताक्षरी सन्दीप कुशवाहा पुत्र राजकरन कुशवाहा निवासी मकान नम्बर-116/123, आनन्द नगर, रावतपुर गॉव, कानपुर नगर उक्त सम्पत्ति को बिल एवज मुबलिग 1,71,87,000/-रूपया में खरीद करने को तैयार है और इससे अधिक कीमत अन्य कोई व्यक्ति देने को तैयार नहीं है, क्योंकि भूमि कम उपजाऊ है और पानी का कोई साधन नहीं है। अतः उक्त कीमत विक्रेतागण/प्रथमपक्ष को मंजूर भी है। अतः विक्रेतागण/प्रथमपक्ष ने खूब सोच समझकर उपरोक्त सम्पत्ति को बिलएवज मुबलिग 1,71,87,000/-रूपया में क्रेता/द्वितीयपक्ष ओमकृपा इन्फ्रा लैण्ड प्रा०लि० स्थित-एम.आई.जी.-220, कैलाश विहार, आवास विकास-1, कल्यानपुर, कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अधिकृत हस्ताक्षरी सन्दीप कुशवाहा पुत्र राजकरन कुशवाहा निवासी मकान नम्बर-116/123, आनन्द नगर, रावतपुर गॉव, कानपुर नगर के हक में विक्रय कतई कर दिया यानी कि बेंच डाला तथा कुल विक्रय कीमत निम्न विवरणानुसार क्रेता/द्वितीयपक्ष से वसूल पा लिया है, अब विक्रेतागण को क्रेता/द्वितीयपक्ष से कोई भी धन प्राप्त करना बाकी नहीं रहा है।


यह भी विदित हो कि विक्रेतागण ने आज की तिथि से ही विक्रीत भूमि से अपना कब्जा व दखल हटाकर क्रेता को काबिज कर दिया है, अब क्रेता/द्वितीयपक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जिस तरह चाहे, उक्त सम्पत्ति को अपने इस्तेमाल में लावें, इसके लिये वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, चाहे वह कृषि कार्य करावे, स्वयं करे या किराये पर उठावे, बलकट उठावें, बन्धक या विक्रय करें। विक्रेतागण/प्रथमपक्ष व वारिसान विक्रेतागण को कोई आपत्ति नहीं होगी।




यह भी विदित हो कि क्रेता/द्वितीयपक्ष को यह भी अधिकार है कि वह क्रयशुदा सम्पत्ति से कागजात सरकारी, भू-राजस्व अभिलेखों आदि में उक्त सम्पत्ति से विक्रेतागण/प्रथमपक्ष का नाम खारिज कराकर अपना नाम बतौर मालिक बखाना मिलकियत में दर्ज करा लेवें तथा विक्रेतागण/प्रथमपक्ष की रजामन्दी दस्तावेज हाजा विक्रय पत्र द्वारा मानी जायेगी, फिर भी कहीं भी विक्रेतागण/प्रथमपक्ष की मदद या लिखित या मौखिक सहमति की आवश्यकता होगी तो विक्रेतागण/प्रथमपक्ष अपने बयान मौखिक, लिखित व शपथपत्र के साथ देने को पाबन्द रहेगें।

यह भी विदित हो कि विक्रेतागण/प्रथमपक्ष द्वारा उक्त सम्पत्ति स्वयं को पूर्ण स्वामी कहकर व हर प्रकार से भार मुक्त कहकर विक्रय की गयी, यदि कोई बात इस लेखपत्र के विपरीत पायी जाये या उसके स्वामित्व पत्र कहीं बन्धक पाये जाये या कोई अन्य व्यक्ति हकदार या हिस्सेदार पाया जायें अथवा विक्रेतागण/प्रथमपक्ष के किसी कार्य या अकार्य से विक्रीत सम्पत्ति का कुल या जुज भाग क्रेता/द्वितीयपक्ष के कब्जा दखल से निकल जाये, तो क्रेता/द्वितीयपक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपना कुल या जुज जरे समन विक्रेतागण/प्रथमपक्ष से बजरिये अदालत वसूल कर लेवें, जिसमें विक्रेतागण/प्रथमपक्ष को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। विक्रेतागण ने उपरोक्त सम्पत्ति को अपने पूर्ण होशोंहवास में मय समस्त हक हकूक, दाखिला-खारिजा, हाल व आइन्दा, बिना छोड़े किसी अधिकार के क्रेता/द्वितीयपक्ष के हक में विक्रय कर दिया है, अब विक्रीत सम्पत्ति से विक्रेतागण/प्रथमपक्ष का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा है। इस विक्रय पत्र की पाबन्दी विक्रेतागण व विक्रेतागण के वारिसान पर लाजिम व वाजिब होगी और पाबन्द रहेगें।

लिहाजा यह विक्रय लेखपत्र अपने मन बुद्धि, शरीर व इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिना किसी भय या दबाव के हर प्रकार से अपना अपना हित देखकर गवाहान के समक्ष पढ़ सुन व समझकर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण स्वरूप समय पर काम आवे।




आवेदन सं०: 201900849025013

विक्रय पत्र


बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3276

वर्ष: 2019

प्रतिफल- 17187000 स्टाम्प शुल्क- 1287000 बाजारी मूल्य - 18381000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 20060

श्री अखिलेश सिटी होम्स रियल्टी एंड डेवलपमेंट प्रा० लि० व अन्य द्वारा
जीतेन्द्र प्रताप सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री रामफल वर्मा
व्यवसाय : अन्य
निवासी: मकान नंबर-५६८ख/५०२, गीतापल्ली, आलमबाग, लखनऊ,
आधार-633180095770



श्री, अखिलेश सिटी होम्स रियल्टी एंड
डेवलपमेंट प्रा० लि० व अन्य द्वारा
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक
03/05/2019 एवं 04:30:49 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

जीतेन्द्र प्रताप सिंह अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

रामचन्द्र (प्रभारी) उपनिबंधक जोन-२ कानपुर नगर।

उप निबंधक :सदर द्वितीय

कानपुर नगर

03/05/2019

संजय रावत सदर द्वितीय कानपुर नगर।

निबंधक लिपिक



तफसील वसूलयाबी जरे समन मु0 1,71,87,000/-रूपया

मु0 1,71,87,000/-रूपया जरिये आर0टी0जी0एस0 दिनांक-18/04/2019 व
26/04/2019 भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-
केशवपुरम्, कानपुर नगर।

मु0 1,71,87,000/-रूपया कुल

इस प्रकार कुल मु0 1,71,87,000/-रूपया विक्रेतागण ने क्रेता से
प्राप्त कर लिया था, अब कोई धन प्राप्त करना बाकी नहीं रहा है। विक्रय
प्रतिफल में टी0डी0एस0 धनराशि शामिल है।

तहरीर दिनांक-01 -05-2019

गवाहान

1.

शैलेन्द्र कुमार वर्मा

पुत्र श्रीराम वर्मा

नि0-134-ए/114

लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी

बीमा विहार, बस्ती, कानपुर नगर

मो0नं0-9839977333

आधार-2002 8554 1167



हस्ताक्षर विक्रेतागण/प्रथमपक्ष

2.

विमलेश कुमार त्रिवेदी

पुत्र कृपाशंकर त्रिवेदी

नि0-ग्राम व पोस्ट

टिकरा, कानपुर नगर

मो0नं0-7007948043

आधार-3771 3777 2169



हस्ताक्षर क्रेता/द्वितीयपक्ष

ड्राफ्टेड बाई मी एण्ड
टाइप्ड बाई माई स्टेनो

राजीव मिश्रा

एडवोकेट

कोर्ट कम्पाउण्ड, कानपुर नगर

आवेदन सं०: 201900849025013

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3276

वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री अखिलेश सिटी होम्स रियल्टी एंड डेवलपमेंट प्रा० लि० व
अन्य के द्वारा जीतेन्द्र प्रताप सिंह, पुत्र श्री रामफल वर्मा
निवासी: मकान नंबर-५६८/ख/५०२, गीतावल्ली, आलमबाग,
लखनऊ, आधार-633180095770

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1



श्री ओमकृपा इन्फ्रा लैंड प्रा० लि० के द्वारा सन्दीप कुमारा, पुत्र श्री राजकरन कुशवाहा

निवासी: मकान नंबर-११६/१२३, आनन्द नगर, रावतपुर गाँव,
कानपुर नगर, आधार-906124405004

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा, पुत्र श्री श्रीराम वर्मा

निवासी: १३४-ए/११४, लखनपुर हाउसिंग सोसाइटी, बीमा
विहार, बस्ती, कानपुर नगर, आधार-200285541167

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2



श्री विमलेश कुमार त्रिवेदी, पुत्र श्री कृष्णकर त्रिवेदी

निवासी: ग्राम व पोस्ट-टिकरा, कानपुर नगर
आधार-377137772169

व्यवसाय: अन्य



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निश्चयन अगूठे नियमानुसार
लिए गए हैं।
टिप्पणी:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रामचन्द्र (प्रभारी) उपनिबंधक जोन-२

कानपुर नगर।

उप निबंधक : सदर द्वितीय
कानपुर नगर

संजय रावत सदर द्वितीय कानपुर
नगर।

निबंधक लिपिक

SIGNATURE OF SELLER	SIGNATURE OF PURCHASER	SIGNATURE OF ENGINEER
		 Er. RANJEET KUMAR D. Civil Engineer Surveyor Appd. By K.D.A. Resi. 14/71, P.P.H., Panki, Kanpur Mobile No.-9919301785

आवेदन सं०: 201900849025013

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9543 के पृष्ठ 285 से 302 तक
क्रमांक 3276 पर दिनांक 03/05/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया
गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रामचन्द्र (प्रभारी) उपनिबंधक जोन-२ कानपुर नगर।
उप निबंधक : सदर द्वितीय
कानपुर नगर
03/05/2019

